



सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या— **423**

04/06/2017

राज्यपाल ने नगरपालिका आम निर्वाचन-2017 के
अवसर पर मतदान किया

पटना, 04 जून 2017

महामहिम राज्यपाल श्री राम नाथ कोविन्द ने आज 'नगरपालिका आम निर्वाचन-2017' के अवसर पर राजकीय कन्या मध्य विद्यालय, राजभवन, पटना मतदान केन्द्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

मतदान करने के बाद मीडिया-प्रतिनिधियों के सवालों का जबाब देते हुए राज्यपाल श्री कोविन्द ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में सभी जनप्रतिनिधि संस्थाओं का समान महत्व है। उन्होंने कहा कि मतदान से लोकतंत्र मजबूत होता है और जन-भावनाओं के प्रकटीकरण का यही सही जरिया भी है।

श्री कोविन्द ने कहा कि सबको अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और बिहार के समग्र विकास हेतु मतदान की महत्ता को सबको समझना चाहिए।

.....